



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

९ कार्तिक १९३२ (श०)
(सं० पटना ७४०) पटना, रविवार, ३१ अक्टूबर २०१०

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

३१ अक्टूबर २०१०

सं०-बी१-३-६८/२०१०-४७—बिहार विधान-सभा आम निर्वाचन, २०१० के चतुर्थ चरण के १४२-बछवाड़ा, १४३-तेघड़ा, १४६-बेगूसराय एवं १४७-बखरी (अ.जा.) विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय परिवर्तित किये जाने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या ४६४/बिहार-वि.स./२०१०, दिनांक ३० अक्टूबर २०१० सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आर० के० प्रसाद,

उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

—सह-सरकार के उप-सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अक्टूबर 2010/8 कार्तिक 1932 (शक)

सं० 464/बिहार-वि.स./2010—यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना संख्या 464/बिहार-वि.स./2010, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010 के भाग (आ) स्थित सारणी के कॉलम 1 में दर्शाये गये विधान-सभा क्षेत्रों में मतदान हेतु समय निर्धारित किया था।

यतः, आयोग ने उक्त सारणी में दर्शाये गये प्रत्येक विधान-सभा क्षेत्रों के सामने, कॉलम 2 में मतदान कराने हेतु समय निर्धारित किया था:

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार ने पत्र संख्या एम-1-0049/2010-10364, दिनांक 29 अक्टूबर 2010 द्वारा आयोग को सूचित किया कि 142-बछवाड़ा, 143-तेघड़ा, 146-बेगूसराय एवं 147-बखरी (अ.जा.) विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र में नक्सली गतिविधि की सूचना प्राप्त हुई है जो मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए खतरा है;

यतः, उपरोक्त वर्णित कारणों से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार ने 142-बछवाड़ा, 143-तेघड़ा, 146-बेगूसराय एवं 147-बखरी (अ.जा.) विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे के स्थान पर सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक करने हेतु प्रस्तावित किया है।

यतः, आयोग ने उक्त कारणों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट की समीक्षा के उपरान्त उक्त विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे करने का निर्णय लिया है,

अतः, अब साधारण खण्ड अधिनियम 1897 की धारा-21 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है,

अतः अब, उक्त अधिसूचना के सारणी के कॉलम 1 में वर्णित 142-बछवाड़ा, 143-तेघड़ा, 146-बेगूसराय एवं 147-बखरी (अ.जा.) के सामने स्थित कॉलम 2 में सुबह 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे प्रविष्ट प्रतिस्थापित की जायेगी।

आदेश से,

के० अजय कुमार, सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 30th October 2010/
8 Kartika 1932(Saka)*

No. 464/BR-LA/2010—WHEREAS, the Commission had vide its notification No. 464/BR-LA/2010 dated 7th October 2010 notified the schedule of General election to the Bihar Legislative Assembly from the Assembly Constituencies mentioned in column (1) of the Table shown under clause (B) in the said notification including 142-Bachhwara, 143-Teghra, 146-Begusarai and 147-Bakhri (SC) Assembly Constituencies; and

WHEREAS, the Commission had also fixed hours of poll for each of the Assembly Constituencies mentioned in the said Table, in column (2) of the said Table, against each of the respective Assembly Constituency; and

WHEREAS, the Commission has received report from the Chief Electoral Officer of Bihar *vide* his letter No.M-1-0049/2010-10364 dated 29th October 2010 in which it is reported that naxal elements are active in the naxal areas of district and are trying to disrupt the poll process, and a possible threat to polling and police personnel.

WHEREAS, in view of this circumstances, the Chief Electoral Officer, Bihar has recommended that the hours of poll in 142-Bachhwara, 143-Teghra, 146-Begusarai and 147-Bakhri (SC) Assembly Constituencies should be changed from the existing time 7.00 AM to 5.00 PM to 7.00 AM to 3.00 PM; and

WHEREAS, the Commission considered the said report of the Chief Electoral officer, Bihar and has decided to change the hours of poll in the said Assembly Constituencies and has fixed them as 7.00 AM to 3.00 PM; and

NOW, THEREFORE, the Election Commission in exercise of the powers conferred on it under Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897, hereby makes the following amendments in its notification referred to above, namely: -

For the existing entries in column (2) of the said Table, against 142-Bachhwara, 143-Teghra, 146-Begusarai and 147-Bakhri (SC) in column (1), the entry “7.00 AM to 3.00 PM” shall be substituted.

By order,
K. AJAYA KUMAR,
Secretary, Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 740-571+300-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>